



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 पौष 1930 (श10)
(सं0 पटना 12) पटना, मंगलवार, 20 जनवरी 2009

संख्या-3ए-2-वे0पु0-04/2009-363 वि(2)

वित्त विभाग

संकल्प

17 जनवरी 2009

राज्य सरकार ने निम्नलिखित प्रीमियर राज्य सेवाओं को रू0 8,000-13,500 का प्रवेश वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया है :-

1. बिहार प्रशासनिक सेवा
 2. बिहार पुलिस सेवा
 3. बिहार वित्त सेवा
 4. बिहार स्वास्थ्य सेवा
 5. बिहार अभियंत्रण सेवा
 6. बिहार वेटेनरी सेवा।
2. इन सेवाओं के मूल कोटि के पदाधिकारियों का वेतन दिनांक 01.01.2006 को वैचारिक रूप से अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 8,000-13,500 में निर्धारित करते हुए पुनरीक्षित वेतन संरचना में औपबंधिक रूप से पे-बैण्ड-3 के अंतर्गत ग्रेड वेतन रू0 5,400 प्रदान किया जायेगा। इससे संबंधित फिटमेंट तालिका अनुलग्नक-1 पर उपलब्ध है। उत्क्रमित अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा, बल्कि 01.01.2006 को प्राप्त मूल वेतन के आधार पर ही नई वेतन संरचना में औपबंधिक रूप से वेतन निर्धारित किया जायेगा।
3. वेतन पुनरीक्षण, बकाया भुगतान एवं पुनरीक्षित वेतन के औपबंधिक भुगतान की तिथि एवं प्रक्रिया वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3ए-2-वे0पु0-04/09-362वि(2) दिनांक 17.01.2009 द्वारा निर्धारित की गई है जो इन सेवाओं के सदस्यों पर भी लागू होगी।

4. इस निर्णय को कार्यान्वित करने के क्रम में कुछ संवर्गों को पुनर्गठित करने की भी आवश्यकता होगी। इस संबंध में आवश्यक अनुशंसाएं समर्पित करने के लिए वेतन समिति को अधिकृत किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

अरूनीश चावला,

अपर वित्त आयुक्त।

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अवर सचिव, वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप-कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अध्यक्ष/सचिव एवं सदस्य सचिव, वेतन समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अरूनीश चावला,

अपर वित्त आयुक्त।

अनुलग्नक -1

Pre-Revised Scale 8000-275-13500		Revised Pay Band + Grade Pay PB-3 Rs.15600-39100 + Rs.5400	
Pre-Revised Basic Pay	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
8,000	15,600	5,400	21,000
8,275	15,600	5,400	21,000
8,550	15,910	5,400	21,310
8,825	16,420	5,400	21,820
9,100	16,930	5,400	22,330
9,375	17,440	5,400	22,840
9,650	17,950	5,400	23,350
9,925	18,470	5,400	23,870
10,200	18,980	5,400	24,380
10,475	19,490	5,400	24,890
10,750	20,000	5,400	25,400
11,025	20,510	5,400	25,910
11,300	21,020	5,400	26,420
11,575	21,530	5,400	26,930
11,850	22,050	5,400	27,450
12,125	22,560	5,400	27,960
12,400	23,070	5,400	28,470
12,675	23,580	5,400	28,980
12,950	24,090	5,400	29,490
13,225	24,600	5,400	30,000
13,500	25,110	5,400	30,510
13,775	25,630	5,400	31,030
14,050	26,140	5,400	31,540
14,325	26,650	5,400	32,050

अरूनीश चावला,
अपर वित्त आयुक्त।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 12-571+1000-डी0टी0पी0।